

## बागपत में नकली शराब बना रहे बाप बेटे को पुलिस ने दबोचा, जेल भेजे गए Baghpat News



Publish Date: Thu, 07 Jan 2021 01:39 PM (IST) Author: **PREM DUTT BHATT**

*छपरौली में पुलिस ने नकली शराब बनाते बाप और बेटे को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 33 लीटर कच्ची शराब 35 पच्चे अपमिश्रित शराब काफी मात्रा में खाली पच्चे और बोतल, यूरिया आदि बरामद किया है। दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।*

**बागपत, जेएनएन।** बागपत के छपरौली में पुलिस ने नकली शराब बनाते बाप और बेटे को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 33 लीटर कच्ची शराब, 35 पच्चे अपमिश्रित शराब, काफी मात्रा में खाली पच्चे और बोतल, यूरिया आदि बरामद किया है। बीते दिनों से क्षेत्र में नकली शराब बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। पुलिस भी ऐसे आरोपितों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाप बेटे को जेल भेज दिया है।

### **दोनों ने भागने की थी कोशिश**

छपरौली में बुधवार रात पुलिस छपरौली-रठौड़ा मार्ग पर गश्त कर रही थी। तभी एक मुखबिर ने सूचना दी कि गांव रठौड़ा के एक घर में बाप बेटा नकली शराब बना उसे तोहफा मार्का व रसीला संतरा मार्का की बोतलों में भरकर बेचने का कार्य करते हैं। पुलिस पार्टी ने सूचना के आधार पर छापेमारी की। वहां पर पुलिस को दो व्यक्ति प्लास्टिक की केन में शराब बनाकर भरते मिले। उन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की।

मगर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और पूछताछ में बाप-बेटे ने नकली शराब बनाने की बात स्वीकार की। मौके से पुलिस को 33 लीटर कच्ची शराब, 35 पच्चे अपमिश्रित शराब, काफी मात्रा में खाली पच्चे और बोतल, यूरिया, जग, नौसादर व कीप आदि सामान मिले। पुलिस आरोपितों को थाने ले आई और उचित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी हेमेंद्र बालियान ने बताया कि जानी पुत्र शेखर व शेखर पुत्र भिखारी निवासी गण रठौड़ा के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-police-arrests-father-and-son-who-is-making-fake-liquor-in-baghpat-sent-to-jail-21247130.html>